



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 1982/पौष 16, 1903

No. 8] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 1982/ PAUSA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1982

का० आ० 9(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10 क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, सीमेन्ट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, एक्सप्रेस बिल्डिंग, चर्चगेट, मुम्बई के सम्बन्ध में नियोजकों और उनके कर्मकारों ने जिनका प्रतिनिधित्व इण्डियन नेशनल सीमेंट एंड एलाईड वर्क्स फडरेशन, मजदूर कार्यालय, कांग्रेस हाउस, मुम्बई करता है, मध्य हुए माध्यस्थता करार को भारत के राजपत्र में श्रम मंत्रालय के आदेश सं० एल-29025/24/81-डी 3बी, तारीख 1 जनवरी, 1982 में प्रकाशित किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि निर्देश करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 क की उपधारा (3क) के अनुसरण में, उन नियोजकों और कर्मकारों की जानकारी के लिये, जो इस माध्यस्थम करार के पक्षकार नहीं हैं किन्तु विवाद से सम्बन्धित हैं पर अधिसूचित करती है कि उन्हें अपना केस मध्यस्थों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा ।

[मं० एल-29025/29/81-डी-3(बी)]

शशी भूषण, अवर सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 1982

**S.O. 9(E).**—Whereas in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government has published the arbitration agreement between the employers in relation to Cement Manufactures Association, Express Building, Churchgate, Bombay and its workmen represented by Indian National Cement and Allied Workers Federation, Mazdoor Karyalaya, Congress House, Bombay in the Gazette of India Extraordinary vide Ministry of Labour Order No. L-29025/24/81-D-III-B dated 1st January, 1982.

And, whereas, the Central Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3A) of Section 10A of the said Act, the Central Government hereby notify for the information of the employers and workmen who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute that they shall be given an opportunity of presenting their case before the Arbitrators.

[No. L-29025/24/81-D. III. B]

SASHI BHUSHAN, Under Secy.